

पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023

प्रलिस के लयि:

जलवायु वतित, जलवायु परविरतन पर संयुक्त राष्ट्र फरेमवरक कनवेंशन (UNFCCC), ग्लोबल स्टॉकटेक, पीटर्सबर्ग संवाद

मेन्स के लयि:

जलवायु वतित और इसका महत्त्व, जलवायु परविरतन की राजनीति, संवेदनशील समुदायों एवं देशों पर जलवायु परविरतन का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात, जो कि [जलवायु परविरतन पर संयुक्त राष्ट्र फरेमवरक कनवेंशन \(United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC\)](#) के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन (COP28) की मेज़बानी कर रहे हैं, ने 1-2 मई, 2023 को बर्लिन, जर्मनी में जलवायु परविरतन पर पीटर्सबर्ग संवाद आयोजित किया।

पीटर्सबर्ग संवाद:

- पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद [संयुक्त राष्ट्र जलवायु परविरतन सम्मेलन \(United Nations Climate Change Conferences- COP\)](#) से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं अंतरराष्ट्रीय मंच है।
- इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने की थी।
- इस फोरम का उद्देश्य पक्षकारों के जलवायु परविरतन सम्मेलनों में सफल वार्ताओं की तैयारी करना है।
- इसका केंद्रीय लक्ष्य बहुपक्षीय जलवायु वार्ताओं और राज्यों के बीच विश्वास को मज़बूत करना है।
- यह संवाद जलवायु अनुकूलन, जलवायु वतित और नुकसान एवं क्षति से निपटने पर केंद्रित है।

प्रमुख बडि

- स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की आवश्यकता:
 - [संयुक्त राष्ट्र महासचिव](#) ने [1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्य](#) को प्राप्त करने हेतु "हमारी [जीवाश्म ईंधन](#) की आदत को छोड़ने और प्रत्येक क्षेत्र में [डीकार्बोनाइज़ेशन \(Break our fossil fuel addiction and drive decarbonization in every sector\)](#)" की आवश्यकता पर बल दिया।
- वैश्विक नवीकरणीय लक्ष्य:
 - जर्मनी के वडिश मंत्री ने अगले जलवायु सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा के संभावित वैश्विक लक्ष्य को लेकर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लयिग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में त्वरित कटौती करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करना:
 - [COP28](#) के अध्यक्ष ने वर्ष 2030 तक [नवीकरणीय ऊर्जा](#) क्षमता को तीन गुना करने और उसके बाद वर्ष 2040 तक दोगुना करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रतभिगी देशों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण में तेज़ी लाने तथा जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करते हुए व्यवहार्य एवं लागत प्रभावी शून्य-कार्बन तकलिफों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।
- जलवायु वतित की स्थिति:
 - वकिसति देशों ने वर्ष 2009 में [COP15](#) के दौरान वर्ष 2020 तक प्रतविरष 100 बलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का वादा किया था और वे ऐसा करते आए हैं।
 - हालाँकि हाल ही के एक अनुमान के मुताबकि, अकेले उभरते बाज़ारों के लयिवर्ष 2030 तक सालाना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जलवायु वतित की जरूरत है, इससे पता चलता है कि वतितय क्षतपूरति की तत्काल आवश्यकता है।
- वैश्विक वतितय प्रणाली में तत्काल परविरतन आवश्यक:
 - उपरोक्त संवाद में वैश्विक वतितय प्रणाली में तत्काल परविरतन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया ताकविश्व के सबसे जलवायु

सुभेदय देशों के लिये जलवायु वित्त का प्रबंधन किया जा सके।

- वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का बोझ गरीब देशों पर नहीं डालना चाहिये क्योंकि वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा के लिये वे सबसे कम ज़िम्मेदार हैं।

■ **ग्लोबल स्टॉकटेक:**

- वर्ष 2023 ग्लोबल स्टॉकटेक का वर्ष है, जिसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या मौजूदा प्रयास हमें पेरिस समझौते में निर्धारित उद्देश्यों तक पहुँचने में सक्षम बनाएंगे।
- पछिल्ले दो वर्षों से रिपोर्ट पर कार्य चल रहा है और इसके सितंबर 2023 में प्रकाशित होने का अनुमान है।
 - **केंद्रीय मंत्री भारतीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि पहले ग्लोबल स्टॉकटेक के नतीजे इस बात पर केंद्रित होने** चाहिये कि कैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, कार्बन और प्रतिक्रियाएँ विकासशील देशों की विकासात्मक प्राथमिकताओं पर असर डालती हैं, **जिसमें गरीबी उन्मूलन भी शामिल है।** इसे राष्ट्रीय सतर पर निर्धारित योगदानों और उन्नत अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अगले दौर को सूचित करने के लिये स्थायी जीवनशैली तथा टिकाऊ खपत पर एक संदेश देने की कोशिश करनी चाहिये।

जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा के लिये भारत की पहल:

■ **जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC):**

- इसे वर्ष 2015 में भारत के वशिष्ठ रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रतिकूल संवेदनशील राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की लागत को पूरा करने हेतु स्थापित किया गया था।

■ **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष:**

- यह कोष स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया था और इसे उद्योगों द्वारा कोयले के उपयोग पर लगने वाले प्रारंभिक कार्बन कर के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

■ यह एक **अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा शासित है जिसका अध्यक्ष वित्त सचिव** होता है।

- इसका जनादेश जीवाश्म और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षेत्रों में नवीन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास का वित्तपोषण करना है।

■ **राष्ट्रीय अनुकूलन कोष:**

- इस नधि की स्थापना वर्ष 2014 में आवश्यकता और उपलब्ध धन के बीच के अंतर को कम करने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए के कोष के साथ की गई थी।
- यह कोष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत संचालित है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में नमिनलखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. इस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किये और यह वर्ष 2017 में लागू होगा।
2. यह समझौता ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग-पूर्व स्तर (pre-industrial levels) से 2°C या कोशिश करे की 1.5°C से भी अधिक न होने पाए।
3. विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये विकासशील देशों की सहायता हेतु 2020 से प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मलेन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मलेन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/petersberg-climate-dialogue-2023>

